



होम > बॉलीवुड > सलमान खान ने 1947 पार्टीशन के गवाहों के लिए रखी 'भारत' की स्पेशल स्क्रीनिंग!  
खेल

2019

# सलमान खान ने 1947 पार्टीशन के गवाहों के लिए रखी 'भारत' की स्पेशल स्क्रीनिंग!

इस यादगार शाम को '1947 पार्टीशन आर्काइव्स' नामक संगठन के साथ विशेष सहयोग में आयोजित किया गया था। 'भारत' फिल्म की अपार सफलता से खुश होकर, सलमान खान ने उन सभी वास्तविक परिवारों के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया, जो 1947 पार्टीशन के साक्षी रह चुके हैं।

BY मुंबई लाइव टीम • 2 MONTHS AGO • MUMBAI





अली अब्बास जफर की फिल्म 'भारत' पहले ही अपनी ओपनिंग के दिन सबसे अधिक कमाई के साथ सलमान खान के लिए रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी है। साथ ही, यह फिल्म अब तक की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है और अब भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। इस सफर को और भी अधिक खास बनाने के लिए, सुपरस्टार ने उन परिवारों के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग की मेजबानी की, जिन्होंने 1947 में पार्टीशन के युग के माध्यम से 'भारत के सफर को करीब से देखा था।



इस यादगार शाम को '1947 पार्टीशन आर्काइव्स' नामक संगठन के साथ विशेष सहयोग में आयोजित किया गया था। 'भारत' फिल्म की अपार सफलता से खुश होकर, सलमान खान ने उन सभी वास्तविक परिवारों के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया, जो 1947 पार्टीशन के साक्षी रह चुके हैं और इस कार्यक्रम में 75 से 85 वर्ष की आयु के बुजुर्ग उपस्थित थे। इस फिल्म की कहानी की तरह ही उस समय भी ऐसे सात परिवार थे, जो अलग-अलग समय पर भारत वापस आए और समय के साथ उनका पूर्णमिलन भी हुआ।

जिंदगी के इन असली हीरों ने सुपरस्टार सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ विशेष स्क्रीनिंग का आनंद लिया जहां सभी अपने भावनात्मक अनुभव भी साझा करते हुए नजर आए।



अली अब्बास जफर द्वारा डायरेक्टेड 'भारत' में सलमान खान और कैटरीना कैफ के अलावा दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, सुनील ग्रोवर और तब्बू भी प्रमुख भूमिका में हैं।



0



0



0



0



0



0

संबंधित विषय

सलमान खान

भारत

स्पेशल स्क्रीनिंग

पार्टीशन

Salman Khan

Bharat

Special Screening

संबंधित एवबट्टें

सन'सनी' लिओनी



3 days ago

---

इस मामले में सनी लिओनी ने पीएम मोदी, सलमान और शाहरुख खान को भी छोड़ दिया पीछे



3 days ago

---

'किक' के 5 साल पूरे होने पर ट्विटर पर एक्टिव हुए फैंस, अगले साल शुरू होगी 'Kick 2' की यात्रा!



22 days ago

---

सलमान और अक्षय से लेकर ये 7 सितारे पुलिस की वर्दी पहन क्राइम का करेंगे खात्मा!



27 days ago

---

इस साल की पहली छमाही में सलमान खान की 'भारत' सबसे लोकप्रिय फिल्म



about a month ago

---

भारत जीता तो '83 की तरह 'वर्ल्ड कप 2019' पर भी बनेगी फिल्म!



2 months ago

[ABOUT US](#)


[THE GUIDEBOOK](#)

[TERMS & CONDITIONS](#)

[PRIVACY POLICY](#)

[FEEDBACK](#)

[CONTACT US](#)



© 2018 Mumbai Live. All Rights Reserved.

A Zenlive Media Private Limited Venture